

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES.



Please scan this QR code to view the Prospectus

DHAVAL PACKAGING LIMITED

(Formerly Known as Dhaval Packaging Private Limited)
Corporate Identity Numbers: U22203GJ2015PLC084963

Our Company was incorporated on November 02, 2015 as 'Dhaval Packaging Private Limited, a private limited company under the provisions of the Companies Act, 2013, pursuant to a certificate of incorporation issued by the Assistant Registrar of Companies, Gujarat, at Ahmedabad. Subsequently, our Company was converted into a public limited company pursuant to a resolution passed by our Board of Directors in their meeting held on August 14, 2025 and by our Shareholders in an Annual General Meeting held on September 08, 2025 and consequently the name of our Company was changed to 'Dhaval Packaging Limited' and a fresh certificate of incorporation dated October 08, 2025 consequent upon conversion to public company was issued by the Central Processing Centre on behalf of the jurisdictional Registrar of Companies. The corporate identification number of our Company was U25202GJ2015PLC084963. Subsequently, the Object Clause of the Memorandum of Association of our Company was amended pursuant to a resolution passed by our Board of Directors in their meeting held on September 24, 2025, and by our Shareholders in an Extraordinary General Meeting held on October 08, 2025. Consequent to such alteration, a fresh certificate of incorporation dated October 22, 2025, reflecting the change in the Object Clause, was issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre, on behalf of the jurisdictional Registrar of Companies. The Corporate Identification Number (CIN) of our Company has been changed to U22203GJ2015PLC084963. For further details of our Company, please refer to section titled "History and Corporate Structure" beginning on page 203 of this Prospectus.

Registered Office : Plot No. E 411, GIDC, Sanand, Ahmedabad, Gujarat, 382110, India. Website: www.dhavalpackaging.com ; E-Mail: info@dhavalpackaging.com ; Telephone No: +91 98980 66258 ; Company Secretary and Compliance Officer: Jeet Alkeshkumar Shah

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MANISH NANALAL DAGLA, DHAVAL NANALAL DAGLA, SHAH AALAP DIPAK, JIGAR HARIVADAN CONTRACTOR, JIGAR MANUBHAI SHAH

Our Company has filed the Prospectus with the RoC and the Equity Shares (as defined below) are proposed to be listed on the Stock Exchanges and the trading will commence on August 6, 2026. The issue has been made in accordance with Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations (IPO of Small and Medium Enterprises) and the equity shares are proposed to be listed on SME Platform of BSE Limited.

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC ISSUE OF 37,48,800 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH OF DHAVAL PACKAGING LIMITED ("DPL" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 97.00/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 87.00/- PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 3,631.42 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 1,88,400 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 97.00/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 87.00/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 182.75 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION").

THE ISSUE INCLUDED A RESERVATION OF 1,20,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 92.00 ^/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 82.00/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 110.40 LAKHS FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES (THE "EMPLOYEE RESERVATION PORTION"). PURSUANT TO FINALIZATION OF BASIS OF ALLOTMENT 98,400 EQUITY SHARES WERE ALLOTTED TO EMPLOYEES UNDER THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION. THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION AND EMPLOYEE RESERVATION PORTION I.e., NET ISSUE OF 34,62,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH AT A PRICE OF ₹ 97.00/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 87.00/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 3,358.14 LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 27.29% AND *25.20%, RESPECTIVELY, OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

^ A DISCOUNT OF ₹ 5 PER EQUITY SHARE WAS OFFERED TO ELIGIBLE EMPLOYEES BIDDING IN THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION.

*PLEASE NOTE THAT THE NET ISSUE % HAS BEEN ADJUSTED FOR THE ALLOTMENT TO ELIGIBLE EMPLOYEES OF 98,400 EQUITY SHARES IN THE ISSUE.

ANCHOR INVESTOR ISSUE PRICE ₹ 97/- PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH

ISSUE PRICE: ₹ 97/- PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE ₹ 10/- EACH.

THE ISSUE PRICE IS 9.7 TIMES OF THE FACE VALUE

RISKS TO INVESTORS:

- A majority of our revenue from operations is from our top 10 customers (which accounted for 51.27%, 46.37% and 49.76% of our revenue from operations for Fiscal Year ended March 31, 2026, March 31, 2025 and March 31, 2024). Additionally, a significant portion of our revenue from operations is derived from our existing customers. Loss of any such customers or reduction in business or demand from such customers will have a significant adverse impact on our business and results of operation.
- We depend on a limited number of suppliers for our raw material requirements of our business. Further, we do not have definitive agreements or fixed terms of trade with most of our suppliers. Failure to successfully leverage our relationships with existing suppliers or to identify new suppliers could adversely affect our business operations.
- Pending NCLT proceedings for revision of Financial Statements and Board's Reports may result in regulatory action and penalties.
- There have been certain instances of delays in payment of certain statutory dues by us. Any further delays in payment of statutory dues may attract financial penalties from the respective government authorities and in turn may have a material adverse impact on our financial condition and cash flows.
- There have been instances of delays in filings of certain forms which were required to be filed as per the reporting requirements as well as discrepancies in the forms submitted to the Registrar of Companies (ROC)/Central Registration Centre (CRC) in accordance with the Companies Act, 2013.
- Any disruptions to the supply, or increases in the pricing, of the raw materials and finished products that we procure, may adversely affect the supply and pricing of our products and, in turn, adversely affect our business, cash flows, financial condition and results of operations.
- Our revenues are significantly dependent on certain geographical regions, and any adverse developments in these regions could adversely impact our business, financial condition and results of operations.
- Our manufacturing facilities are located only in the state of Gujarat. Any adverse developments affecting our operations in the Gujarat could have an adverse impact on our revenue and results of operations.
- Our business is operating under various laws which require us to obtain approvals from the concerned statutory/regulatory authorities in the ordinary course of business, and if we are unable to obtain these approvals and the renewals, our business operations could be adversely affected thereby impacting our revenues and profitability
- Our business operations are highly dependent on the efficient functioning of our manufacturing machinery, and any breakdown, malfunction or technical failure may adversely affect our production and profitability.

ISSUE PROGRAMME:

ANCHOR INVESTOR BIDDING DATE OPENED AND CLOSED ON: JULY 29, 2026

BID/OFFER OPENED ON: JULY 30, 2026

BID/OFFER CLOSED ON: AUGUST 03, 2026

This Issue was made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 229 of the SEBI ICDR Regulations and in compliance with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50.00% of the Net Issue was made available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") (the "QIB Portion") our Company in consultation with the BRLM may allocated 60.00% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis ("Anchor Investor Portion"). 33.33% of the Anchor Investor Portion shall be reserved for domestic Mutual Funds and 6.67% for Life Insurance Companies and Pension Funds (aggregating to 40%), subject to valid Bids being received from them at or above the Anchor Investor Allocation Price in accordance with the SEBI ICDR Regulations. In the event of under-subscription in the Life Insurance Companies and Pension Funds portion, the same may be allocated to domestic Mutual Funds. Further, 5.00% of the Net QIB Portion was made available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion was made available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, including Mutual Funds, subject to valid Bids having been received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5.00% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion were added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15.00% of the Net Issue was made available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors out of which (a) one third of the portion available to non-institutional investors was reserved for applicants with application size of more than two lots and up to such lots equivalent to not more than ₹ 10 lakhs (b) two third of the portion available to non-institutional investors was reserved for applicants with application size of more than ₹ 10 lakhs, provided that the unsubscribed portion in either of the sub-categories specified in clauses (a) or (b) was allocated to applicants in the other sub-category of non-institutional investors, and not less than 35.00% of the Net Issue was made available for allocation to the Individual Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids having been received from them at or above the Issue Price. All Bidders were required to participate in the Issue by mandatorily utilizing the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBA Account (as defined hereinafter) in which the corresponding Bid Amounts were blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. For details, see "**Issue Procedure**" on page 308 of this Prospectus.

The bidding for Anchor investors was opened and closed on July 29, 2026. The company received 5 Anchor Investors application for 13,41,600 Equity Shares. The Anchor Investor Allocation Price was finalized at ₹ 97.00 per Equity Share. A total of 10,30,800 Equity Shares were allotted under the Anchor Investor portion aggregating to ₹ 9,99,87,600.

The issue (excluding Anchor Investor Portion) received 25,493 applications for Equity Shares (before rejections and after removing Multiple/Duplicate bids, and Bid not Banked) resulting in 46.76 times subscription (including reserved portion of market maker). The Details of the total Applications received in the issue from various categories are as under (before rejections):

Sr. No.	CATEGORY	NO. OF APPLICATIONS RECEIVED*	NO. OF EQUITY SHARES APPLIED	NO. OF EQUITY SHARES RESERVED AS PER PROSPECTUS	NO. OF TIMES SUBSCRIBED	AMOUNT (₹)
A	Retail Individual Investors	20,378	48,908,400	1,204,800	40.59	4,743,336,000.00
B	Non-Institutional Investors - More than 2 Lakhs Upto 10 Lakhs	2,285	8,655,600	172,800	50.09	839,070,000.00
C	Non-Institutional Investors -Above 10 Lakhs	2,781	30,721,200	344,400	89.20	2,979,956,400.00
D	Eligible Employees	21	98,400	120,000	0.82	9,052,800.00
E	QIBs (excluding Anchors Investors)	27	38,524,800	687,600	56.03	3,736,905,600.00
F	Market Maker	1	188,400	188,400	1.00	18,274,800.00
	Total	25,493	127,096,800	2,718,000	46.76	12,326,595,600.00

* Individual Investors means Individual Investors who applies for minimum application size.

Final Demand

A summary of the final demand as per BSE as on the Bid/Issue Closing Date at different Bid Prices is as under:

Sr. No.	BID PRICE	NO. OF EQUITY SHARES	% TO TOTAL	CUMULATIVE TOTAL	CUMULATIVE % OF TOTAL
1	92	226,800	0.16	226,800	0.16
2	93	36,000	0.03	262,800	0.18
3	94	25,200	0.02	288,000	0.20
4	95	84,000	0.06	372,000	0.26
5	96	54,000	0.04	426,000	0.30
6	97	142,062,000	99.70	142,488,000	100.00
	Total	142,488,000	100.00		

The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange - BSE on August 4, 2026

1) Allocation to Individual Investor (After Rejections & Withdrawal) (including ASBA Applications)

The Basis of Allotment to the Individual Investors, who have bid at or above the Issue Price of ₹ 97 per equity shares, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed by 39,70,949 times i.e. for 48,223,200 Equity Shares. Total number of shares allotted in this category is 1,214,400 Equity Shares (i.e. Includes spilled over of 9,600 Equity Shares from Employee Category) to 506 successful applicants. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr No	Category	No. of Applications Received	% to total	Total No. of Equity Shares Applied	% to total	No. of Equity Shares Allotted Per Bidder	Ratio	Total No. of Equity Shares Allotted
1	2400	20,093	100.00	48,223,200	100.00	2400	148 : 5877	1,214,400
	TOTAL	20,093	100.00	48,223,200	100.00			1,214,400

2) **Allocation to Non-Institutional Investors (up to ₹ 10 lakhs) (After Rejections & Withdrawal):** The Basis of Allotment to Other than Individual Investors (who applied for minimum application size), who have bid at Issue Price of ₹ 97 per equity shares or above, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed by 49,38,621 times i.e. for 8,593,200 Equity Shares. The total number of shares allotted in this category is 174,000 Equity Shares (i.e. Includes spilled over of 1,200 Equity Shares from Employee Category) to 48 successful applicants. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr No	Category	No. of Applications Received	% to total	Total No. of Equity Shares Applied	% to total	No. of Equity Shares Allotted Per Bidder	Ratio	Total No. of Equity Shares Allotted
1	3600	2,074	91.37	7,466,400	86.89	3,600	44 : 2074	158,400
2	4800	129	5.68	619,200	7.21	3,600	3 : 129	10,800
3	6000	24	1.06	144,000	1.68	3,600	1 : 24	3,600
4	7200	17	0.75	122,400	1.42	3,600	0 : 17	0
5	8400	7	0.31	58,800	0.68	3,600	0 : 7	0
6	9600	19	0.84	182,400	2.12	3,600	0 : 19	0
						1,200	1 : 4	1,200
	TOTAL	2,270	100.00	8,593,200	100.00			174,000

Note : 1 lot of 1200 shares have been allocated to 1 Applicant from amongst 4 Successful Allottees from Category 4800 to 9600 (i.e.excluding successful Allottees from Category 3600) in the ratio of 1:4.

3) Allocation to Non-Institutional Investors (above ₹ 10 lakhs) (After Rejections & With drawl) (including ASBA Applications)

The Basis of Allotment to Other than Individual Investors (who applied for minimum application size), who have bid at Issue Price of ₹ 97 per equity shares or above, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed by 88,03,103 times i.e. 30,634,800 for Equity Shares. The total number of shares allotted in this category is 348,000 Equity Shares (i.e. Includes spilled over of 3,600 Equity Shares from Employee Category) to 96 successful applicants. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr No	Category	No. of Applications Received	% to total	Total No. of Equity Shares Applied	% to total	No. of Equity Shares Allotted Per Bidder	Ratio	Total No. of Equity Shares Allotted
1	10800	2,678	96.57	28,922,400	94.41	3,600	93 : 2678	334,800
2	12000	56	2.02	672,000	2.19	3,600	2 : 56	7,200
3	13200	19	0.69	250,800	0.82	3,600	1 : 19	3,600
4	14400	5	0.18	72,000	0.24	3,600	0 : 5	0
5	15600	1	0.04	15,600	0.05	3,600	0 : 1	0
6	16800	2	0.07	33,600	0.11	3,600	0 : 2	0
7	19200	1	0.04	19,200	0.06	3,600	0 : 1	0
8	21600	1	0.04	21,600	0.07	3,600	0 : 1	0
9	24000	3	0.11	72,000	0.24	3,600	0 : 3	0
10	26400	1	0.04	26,400	0.09	3,600	0 : 1	0
11	28800	1	0.04	28,800	0.09	3,600	0 : 1	0
12	31200	1	0.04	31,200	0.10	3,600	0 : 1	0
13	33600	1	0.04	33,600	0.11	3,600	0 : 1	0
14	43200	1	0.04	43,200	0.14	3,600	0 : 1	0
15	48000	1	0.04	48,000	0.16	3,600	0 : 1	0
16	344400	1	0.04	344,400	1.12	3,600	0 : 1	0
	All Allottees	-	0.00	-	-	1,200	2 : 96	2,400
	TOTAL	2,773	100.00	30,634,800	100.00			348,000

Note : 1 (One) lot of 1200 shares have been allocated to all the 96 Successful Applicants from all the Categories in the ratio of 2 : 96

4) Allotment to Eligible Employees (After Technical Rejections) (including ASBA Applications)

The Basis of Allotment to the Eligible Employees, who have bid at the Offer Price of ₹ 97 per Equity Share or above, was finalized in consultation with BSE. This category has been subscribed to the extent of 0.820000 times. The total number of Equity Shares allotted in this category is 98,400 Equity Shares to 21 successful applicants. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr No	Category	No. of Applications Received	% to total	Total No. of Equity Shares Applied	% to total	No. of Equity Shares Allotted Per Bidder	Ratio	Total No. of Equity Shares Allotted
1	2400	1	4.76	2,400	2.44	2400	1 : 1	2,400
2	4800	20	95.24	96,000	97.56	4800	1 : 1	96,000
		2,849	100.00	327,250	100.00			98,400

Unsubscribed portion of 21,600 Equity Shares spilled over to QIBs, NIB and Individual Investor Categories in the ratio of 50:15:35.

5) **Allocation to QIBs excluding Anchor Investors (After Rejections & Withdrawal):** The Basis of Allotment to QIBs, who have bid at Issue Price of 97/- per Equity Shares or above, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed by 55,44,732 times i.e. for 38,524,800 Equity shares. The total number of shares allotted in this category is 694,800 Equity Shares (i.e., Includes spilled over of 34,800 Equity Shares from QIB MF category and 7,200 Equity shares from Employee Category) to 25 successful applicants. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

CATEGORY	FIS/BANKS	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FII-FPI	OTHERS	TOTAL
Allotment	-	-	-	-	-	93,600	601,200	694,800

6) **Allocation to Anchor Investors (After Rejections & Withdrawal):** The Company in consultation with the BRLM has allotted 1,030,800 Equity Shares to 5 Anchor Investors at Anchor Investor Issue Price of ₹ 97/- per Equity Shares in accordance with the SEBI ICDR Regulations. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

CATEGORY	FIS/BANKS	MFS	IC'S	NBFC'S	AIF	FPC/FPI	INS	PF	OTHERS	TOTAL
Allotment	-	-	-	103,200	619,200	308400	0	-	0	1,030,800

7) **Allocation to Market Maker (After Rejections & Withdrawal):** The Basis of Allotment to Market Maker who have bid at Issue Price of ₹ 97/- per Equity Shares or above, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed by 1,00,00,000 times i.e. for 188,400 Equity shares. The total number of shares allotted in this category is 188,400 Equity Shares. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

Continue to Next Page...

Continue From Previous Page...

Sr No	Category	No. of Applications Received	% to total	Total No. of Equity Shares Applied	% to total	No. of Equity Shares Allotted Per Bidder	Ratio	Total No. of Equity Shares Allotted
1	188,400	1	100.00	188,400	100.00	188400	1 : 1	188,400
TOTAL		1	100.00	188,400	100.00			188,400

The Board of Directors of the Company on **August 4, 2026**, has taken on record the Basis of Allotment of Equity Shares as approved by BSE Limited and has allotted the Equity Shares to various successful bidders. The Allotment Advices-cum-Intimations and/or notices have been forwarded to the email ids and/or address of the Applicants as registered with the depositories/as filled in the application form. Further, the instructions to Self-Certified Syndicate Banks for unblocking the funds & transfer to Public Issue Account have been issued on or before **August 5, 2026** and payment to non-syndicate brokers has been issued on or before **August 5, 2026**. In case the same is not received within two working days, investors may contact at the address given below. The equity shares allotted to the successful allottees have been uploaded on **August 5, 2026** for credit into the respective beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company has filed the Listing application with BSE Limited on **August 5, 2026**. trading will commence on **August 6, 2026..**

INVESTORS PLEASE NOTE

The details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the Issue, Kfin Technologies Limited SEBI Registration Number: INR000000221 at www.kfintech.com. All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/ Sole applicants, serial number of the Bid cum Application Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:



Karnataka Bank Ltd.
Your Family Bank. Across India.

आरित वसुली प्रबंधन शाखा 8-बी,
प्रथम तल, राजेंद्र पार्क,
पुसा रोड नई दिल्ली-110 060

फोन: 011-40591567 (एक्सटेंशन-231)
ई-मेल: delhiarm@ktk.bank.in
वेबसाइट: www.karnatakabank.bank.in
सीआरएन: L85110KA1924PLC001128

परिशिष्ट IV [निबन्ध 8 (1)]
कच्चा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
जबकि, अपोहरताक्षरी, कर्नाटक बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन [अधिनियम], 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13 (12) के साथ [नियम 3] के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर: (1) **श्रीमती नेहा कुमार पत्नी श्री अशोक कुमार,** (2) **श्री अशोक कुमार पुत्र श्री नाथ राम, दोनों नंबर (1) और (2), निवास स्थान: मकान नंबर 82, दूतीव तल, पंकेट-27, सेक्टर-24, रोहिलन, नई दिल्ली -110085** से पीएस-सावधि ऋण **खाता संख्या 5497001800022901 के तहत 03.01.2026** से भावी व्याज सहित सूचना में उल्लिखित राशि रु. 20,00,719.00 [**रुपये बीस लाख सात सौ उन्नीस मात्र**] का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहते हुए 30.01.2026 को मांग सूचना जारी की थी। कर्जदारों, बंधककर्ताओं तथा जमानतियों को राशि के पुनर्पुगतता में असफल होने के कारण एतद्गार कर्जदारों, बंधककर्ताओं तथा जमानतियों को तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अपोहरताक्षरी का संव्यवहार पीएस-सावधि ऋण **खाता संख्या 5497001800022901 के तहत 03.08.2026** से भावी व्याज सहित सूचना में उल्लिखित राशि रु. 20,00,719.00 (**रुपये बीस लाख सात सौ उन्नीस मात्र**) और लागत के लिए कर्नाटक बैंक लिमिटेड, रोहिली शाखा के प्रभार का विषय होगा। [प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध सम्य सोंमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के तहत आकृष्ट किया जाता है।

विशेष रूप से कर्जदारों, बंधककर्ताओं तथा जमानतियों को तथा जनसामान्य को एतद्गार नीचे उल्लिखित सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार पीएस-सावधि ऋण **खाता संख्या 5497001800022901 के तहत 03.08.2026** से भावी व्याज सहित सूचना में उल्लिखित राशि रु. 20,00,719.00 (**रुपये बीस लाख सात सौ उन्नीस मात्र**) और लागत के लिए कर्नाटक बैंक लिमिटेड, रोहिली शाखा के प्रभार का विषय होगा। [प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध सम्य सोंमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के तहत आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण	
सिद्धिज परियोजना में टर्कर-नं में 11वें तल पर आवासीय प्रोलेक्ट फ्लैट नंबर जी-1106 का समस्त भाग, सेक्टर-95 में अपोहर्तबन्ध गुप्त हाउसिंग, अस्थायी कार्पेट क्षेत्रफल 460.39 वर्ग फुट और वाहननी हरिमें अस्थायी रूप से मांग 88.96 वर्ग फुट, गांव: ठोरका के आसपास स्थित, तहसील-हरसरस, गुरुग्राम, हरियाणा, श्रीमती नेहा कुमार के स्वामित्व में। सीमाएं: पूर्व: खुला स्थल: खुला उत्तर: प्रवेश/गलियारा दक्षिण: अन्य का फ्लैट	हस्ता/-
स्थान: गुरुग्राम दिनांक: 04.08.2026	कुल कर्नाटक बैंक लिमिटेड मुख्य प्रबंधक और प्रतिभूति अधिकारी



बैंक ऑफ इंडिया
Relationship beyond banking

बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ इंडिया

बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ इंडिया

सेवा में,
श्री राजेंद्र सिंह और श्रीमती कविता
मकान नंबर 2567, एली नगर 91, हनुमान मंदिर के पास, पर्यतिथी कॉलोनी, सेक्टर-22, फरीदाबाद, हरियाणा, 121004, मोबाइल नंबर 9891819615
वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन की धारा 13(2) के तहत नोटिस
1. आपको अनुरोध कर, बैंक ने आपको कुल रु.59,00,000 (उनसठ लाख रुपये) की विभिन्न क्रेडिट सुविधाएँ दी हैं। हम नीचे आपको दी गई विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं और नोटिस की तारीख तक उन पर बकाया राशि का विवरण दे रहे हैं:-

क्र. सं.	सुविधा का प्रकार	स्वीकृत सीमा (रु.में)	बकाया राशि (रु.में)
(ए)	स्टैंडर होम लोन (673175110000226)	59,00,000 /- 59,00,000 /-	59,06,379.50 + 30.03.2026 से व्याज
कुल			59,06,379.50 + 30.03.2026 से व्याज

2. बैंक द्वारा दी गई उपरोक्त ऋण सुविधाएँ निम्नलिखित परिसंपत्तियों/प्रतिभूतियों (बैंक को प्रामाणित संपत्तियों /परिसंपत्तियों का विवरण) द्वारा सुरक्षित हैं:-
फरीदाबाद जिले के सेक्टर 76 अर्बन एस्टेट में प्लॉट नंबर 116 पर स्थित 133.05 वर्ग मीटर के शिफायरी प्लॉट का ईक्वयुम , जो श्रीमती कविता (पत्नी श्री गजेंद्र सिंह) के स्वामित्व और कब्जे में है।
कार्यवाहक: फ्री होल्ड
सीमाएँ इस प्रकार हैं:
पूर्व: अन्य प्लॉट
पश्चिम: प्लॉट का प्रवेश मार्ग (12 मीटर चौड़ा)
उत्तर: खाली प्लॉट नंबर 117
दक्षिण: खाली प्लॉट नंबर 115
3. चूंकि आप उक्त उपचार सुविधाओं के तहत बैंक को उसकी बकाया देयराशिओं का प्रतिभुगतान करने में चुक कर चुके हैं अतएव हमने आपके कर्ता को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत निर्देशों /दिशानिर्देशों के अनुपालन में 22.04.2026 से प्रभावी अनिषादननीय परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया है।
4. उपरोक्त वर्णित कार्यों के लिए, हम एतद्द्वारा आपको उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचित करते हैं और इस सूचना की तिथि से 60 दिनों की एकाग्रि के अंदर आपको द्वारा किए प्रतिभुगतान तक, बैंक द्वारा उपगत समस्त लागतों, प्रभारों व व्ययों और मासिक शेषों के साथ रु. 59,06,379.50 + 30.03.2026 से व्याज (उनसठ लाख छह हजार तीन सौ उन्नासी रुपये और पचास पैसे) (22.04.2026 तक का अनुबंध के अनुसार बकाया), जिस पर आगे 30.03.2026 से 11.60: साप्तांतिक की दर से व्याज (मासिक आधार पर कंपाउंडिंग के साथ) और आपके द्वारा भुगतान किए जाने तक बैंक द्वारा उदाए गए सभी खर्च और शुल्क को इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर, भुगतान करके अपने भुगतान-दायित्वों का पूर्ण निर्वहन करने को कहते हैं। ऐसा न होने पर कृपया ध्यान दें कि हम पूरी तरह से आपके जोड़ियम पर, लागत और परिणाम के रूप में, ऊपर उल्लिखित सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 के तहत बैंक में निहित शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
5. जब हम आपको, ऊपर वर्णित अवधि के अंदर, उपरोक्तानुसार प्रतिभुगतान होने तक बैंक द्वारा उपगत समस्त लागतों, प्रभारों व व्ययों और लागू व्याज के साथ बैंक को देय-मुलेय संपूर्ण देयराशिओं का भुगतान करके अपने भुगतान-दायित्व का निर्वहन करने और प्रतिभूत परिसंपत्तियों का मोचन करने को कहते हैं। तो कृपया इस महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें कि इसका तत्परतापूर्ण सरकोएंसि अधिनियम की धारा 13(6) के अनुसार सुरक्षित परिसंपत्तियों के मोचन का अधिकार आपको केवल सार्वजनिक नीलाभी के लिए नोटिस के प्रकाशन की तिथि तक या सुरक्षित परिसंपत्तियों के पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के लिए सार्वजनिक या निजी संधि से उद्भवण या निषिधा आमांजित करने की तिथि तक ही उपलब्ध होगा।
6. ऊपर वर्णित शक्तियों का प्रयोग करने से प्राप्त हुई राशि संश्लेषण का अनुपयुक्तिकरण हमारे द्वारा उपगत समस्त लागतों, प्रभारों एवं व्ययों तथा/ अथवा उनसे संबंधित किसी आकस्मिक व्यय के लिए होगा, और द्वितीय रूप में इस सूचना की तिथि से लेकर के वास्तविक वसूली की तिथि तक संचिदात्मक व्याज के साथ उपरोक्तानुसार बैंक की देयराशिओं के लिए होगा, और बैंक की संपूर्ण देयराशिओं (उधारकर्ता अथवा गारंटर के रूप में बैंक हेतु देय-मुलेय आपके किसी अन्य देय के अंतर्गत सम्मिलित) की पूर्ण वसूली होने के उपरत निकलनेवाली रकम की शेष राशि, राशि की वसूली के लिए किया जाएगा।
7. यदि उक्त देयराशिओं की, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध उक्त शक्तियों के प्रयोग की अवधि में वसूली गई प्राप्तियों से, पूरी तरह वसूली नहीं की जाती है, तो हमारे पास आपके और आपकी अन्य परिसंपत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसमें वसूली अधिकरण/व्यायालयों के समुच्चय विधिक/ वसूली की कार्रवाइयां दर्ज करना सम्मिलित होगा, जो कि आपसे समस्त लागतों इत्यादि और उससे संबंधित आकस्मिक व्यय के साथ शेष बकाया राशि की वसूली के लिए किया जाएगा।
8. कृपया ध्यान दें कि, यह सूचना की प्राप्ति के उपरान्त, उपर्युक्त अधिनियम की धारा (13) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बैंक के एक विधिवत प्राधिकृत अधिकारी हैं।
10. यह करने की आवश्यकता नहीं है कि यह सूचना आपको बैंक के पास उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपचार के पूर्वाग्रह के बिना संबोधित है।

स्थान: तिगांव
दिनांक: 31.07.2026
(एमडी. आजाद)
प्राधिकृत अधिकारी



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
बैंक ऑफ महाराष्ट्र

नोएडा अंचल कार्यालय : बी 192/ए. सेक्टर 52 नोएडा 201301
ईमेल- recovery_noi@mahabank.co.in
प्रधान कार्यालय : लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे-5

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना
बैंक ऑफ महाराष्ट्र की निम्नलिखित शाखाओं के माध्यम से नीचे उल्लिखित ऋणधारकों/ गारंटरी द्वारा लिए गए ऋणों के संबंध में, जो नीचे उल्लिखित बकाया राशि के साथ एक्वयुम बन गए हैं। हमने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत पंजीकृत डाक और स्पीड पोस्ट द्वारा पावती सह निषादन सहित नीचे उल्लिखित शक्तियों पर पहले ही विस्तृत मांग सूचना जारी कर दी है, जो बिना पहुंचे वापस आ गई है। हमने 60 दिनों के भीतर उल्लेखित राशि का भुगतान करने में आपकी विफलता की स्थिति में अधिनियम की धारा 13 (4) के अनुसार आपके स्वामित्व वाली प्रतिभूतियों का कब्जा लेने के अपने इरादे को उजागर कर दिया है। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को वापस छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 8 के प्रावधानों की और आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्नानुसार है :-

ऋणधारकों तथा गारंटर(रों) के नाम व पते	संपत्ति तथा संपत्ति के स्वामी का विवरण	क्रेडिट सुविधा की प्रकृति तथा राशि	बकाया राशि मांग सूचना तिथि
शाखा - मुजफ्फरनगर			
1. श्रीमती सबा खान पुत्री खुरशीद आलम पता- मकान नंबर 5725, जामिया नगर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश-251002	खसरा संख्या 3219 के भाग पर स्थित आवासीय संपत्ति, नगर पालिका मकान नंबर KD00000603354, मोहल्ला कुम्हारपुरी दक्षिण परगना, तथा तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर जिसका क्षेत्रफल 35.03 वर्ग मीटर है और सीमाएँ इस प्रकार हैं :- पूर्व - शहशाह का मकान, पश्चिम - गयूर आदि का मकान, उत्तर - 15 फीट चौड़ा सरता, दक्षिण - अन्य व्यक्ति का प्लॉट। CERSAI/ASSET ID-20090757580	क्रेडिट सुविधा संख्या-1 महा न्यू हाउसिंग नॉन-सेल्सरीड प्राइमरी टीएल सुविधा रु. 20.00 लाख तथा खाता संख्या 60527857517 एनपीए तिथि : 28.05.2026 मांग सूचना तिथि : 15.06.2026	खाता बही शेष : रु. 19,81,905.35 /- अनारोपित व्याज : रु. 53,319.00 /- बकाया दंड : रु. 77.00 /- दिव्याज शुल्क : रु. 177.00 /- कुल योग : रु. 20,35,478.35 /- तथा 15.06.2026 से अनारोपित व्याज, 2% की दर से दंडात्मक व्याज और खाते में अन्य शुल्क/ खर्चों के साथ। मांग सूचना तिथि : 15.06.2026
1. श्री मो. शाहरुक़ पुत्र अब्दुल गान्गुल पता : निगमा गुल, शाहदुर्गेनगर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश-251002.	संपत्ति : खसरा संख्या 680 के भाग पर स्थित आवासीय मकान, मीजा नयाजपुर, बांदी माहट शाहदुर्गेनगर, परगना व तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर जिसका क्षेत्रफल 30.09 वर्ग मीटर है, जो श्री मो. शाहरुक़ के स्वामित्व में है और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं :- पूर्व - 15 फीट चौड़ी प्रडक, पश्चिम - अन्य व्यक्ति का प्लॉट, उत्तर - जिआबा पर्यीन का प्लॉट, दक्षिण - इसार का प्लॉट CERSAI/ASSET ID-200998042771	क्रेडिट सुविधा संख्या-1 महा न्यू हाउसिंग नॉन-सेल्सरीड प्राइमरी टीएल सुविधा रु. 15.00 लाख तथा खाता संख्या 60552357670 एनपीए तिथि : 15.06.2026	खाता बही शेष : रु. 14,90,855.00 /- सौचित व्याज : रु. 41,812.00 /- बकाया दंड : रु. 145.00 /- दिव्याज शुल्क : रु. 177.00 /- कुल योग : रु. 15,32,989.00 /- तथा 15.06.2026 से अनारोपित व्याज, 2% की दर से दंडात्मक व्याज और खाते में अन्य शुल्क/ खर्चों के साथ। मांग सूचना तिथि : 19.06.2026

शाखा - अलीगढ़			
1. श्री शारिक अंसारी पुत्र श्री नूर मोहम्मद, पता : गली नंबर 1, अब्बास नगर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश-251002.	खाता संख्या-81, खेत संख्या-115 के भाग पर स्थित आवासीय संपत्ति का सामायिक कंक, मीजा चिलकोरा, कोल अलीगढ़ उत्तर प्रदेश 202001, जिसका क्षेत्रफल 41.80 वर्ग मीटर है, जिसके स्वामी श्रीमती अंसारी हैं तथा सीमाएँ इस प्रकार हैं :- पूर्व- माग 14 फीट फिर श्री मोहम्मद शिह का खेत, पश्चिम- माग 14 फीट फिर 16 फीट चौड़ा सरता, उत्तर- माग 32 फीट फिर मिर्जाता का प्लॉट, दक्षिण- माग 32 फीट फिर शहनाज का प्लॉट CERSAI/ASSET ID : 200067949095	क्रेडिट सुविधा संख्या 1 रु. 15.00 लाख की रकम सुविधा खाता संख्या 60433613815 एनपीए तिथि : 08.06.2026	खाता बही शेष : रु. 13,21,783.00 /- अनारोपित व्याज : रु. 31,480.00 /- बकाया दंड : रु. 173.00 /- दिव्याज शुल्क : रु. 177.00 /- कुल योग : रु. 13,53,613.00 /- तथा 11/06/2026 से खाते में सौदात्मक दर पर व्याज, 2% की दर से दंडात्मक व्याज और खाते में अन्य शुल्क/ खर्चों के साथ। मांग सूचना तिथि : 11.06.2026

शाखा - संतल			
1. श्री विवेक शील पुत्र ओम प्रकाश, पता : 57, रामपुर उर्फ यापुरी संतल, उत्तर प्रदेश, 244302	संपत्ति : गाटा संख्या 67, मोहल्ला रोच खान सरान, दुर्गा कॉलोनी, किष्म फैसल के पास, तहसील और जिला- संतल, उत्तर प्रदेश- 244302 में स्थित आवासीय मकान के सभी टुकड़े और मूडबूज जिसका क्षेत्रफल 107.91 वर्ग मीटर है, जो श्री विवेक शील के स्वामित्व में है और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं :- पूर्व - सीरम रसोनी का मकान, पश्चिम - सुग प्रसाद का मकान, उत्तर - 14 फीट चौड़ा सरता, दक्षिण - 14 फीट चौड़ा सरता CERSAI/ASSET ID-2000810941217	क्रेडिट सुविधा संख्या-1 रु. 15.00 लाख की रकम सुविधा तथा खाता संख्या : 60487764099 एनपीए तिथि : 08.06.2026	खाता बही शेष : रु. 13,27,994.00 /- अनारोपित व्याज : रु. 44,802.00 /- बकाया दंड : रु. 255.00 /- दिव्याज शुल्क : रु. 177.00 /- कुल योग : रु. 13,73,228.00 /- तथा 09/06/2026 से खाते में सौदात्मक दर पर व्याज, 2% की दर से दंडात्मक व्याज और खाते में अन्य शुल्क/ खर्चों के साथ। मांग सूचना तिथि : 09.06.2026

1. श्री फखरे आलम पुत्र फिरोज आलम, पता : 66, मीना शाह रोड, एमएफएमएस स्कूल के पास, धम्म साराय, संतल, उत्तर प्रदेश 244302	मकान नंबर- 291-368/266 मोहल्ला चमन सरान, तहसील व जिला- संतल, उत्तर प्रदेश, फिनकोड- 244302 में स्थित आवासीय मकान के सभी टुकड़े और मूडबूज जिसका क्षेत्रफल 146 वर्ग मीटर है जो श्रीमती सलमा बेगम के स्वामित्व में है और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं :- पूर्व - नसीर और सीधीका का मकान, पश्चिम - असदम शाह रोड, एमएफएमएस स्कूल के पास और साहिर का मकान, उत्तर - 6 फीट चौड़ा सरता, दक्षिण पर, धम्म सारा, संतल, उत्तर प्रदेश, 244302	क्रेडिट सुविधा संख्या-1 रु. 9.80 लाख की रकम सुविधा तथा खाता संख्या : 60475566602 एनपीए तिथि : 07.06.2026	खाता बही शेष : रु. 6,40,989.00 /- अनारोपित व्याज : रु. 20,849.00 /- बकाया दंड : रु. 310.00 /- दिव्याज शुल्क : रु. 177.00 /- कुल योग :- रु. 6,62,344.00 /- तथा 09/06/2026 से खाते में सौदात्मक दर पर व्याज, 2% की दर से दंडात्मक व्याज और खाते में अन्य शुल्क/ खर्चों के साथ। मांग सूचना तिथि : 09.06.2026
---	--	---	--

आप सभी को सलाह दी जाती है कि (1) अधिक तथा पूर्ण विवरण के लिए आधेहरताक्षरी की ओर से आपको संबोधित और/ याईर डाक सीलकारियों द्वारा लौटाए गए हैं, तो मूल सूचना/ लिफाफे को प्राप्त करें (2) सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत आपकी कार्यवाही से बचने के लिए ऊपर संदर्भित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि, व्याज और लागत आदि का भुगतान करें। (तथा) (3) हमारी पूर्ण लिखित सहमति के बिना प्रतिभूतियों का निस्तरण या लेनदेन करने से बचें।

दिनांक: 04.08.2026
प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र



इंडियन ओवरसीज बैंक

इज्जर शाखा
(पता: देशवाल कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड के सामने,
इज्जर (एम.सी), इज्जर, हरियाणा -124103, फोन नंबर 8925953619
और ईमेल आईडी : iob3619@iob.in)

कर्जदार को मांग सूचना
सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (2) के तहत

स्थान : इज्जर	तिथि : 20.07.2026
क्र. सं. कर्जदार	
01 श्रीमती सबली पत्नी मृतक जगवीर सिंह पता -वीपीओ भूरावल इज्जर 124103	
02 श्रीमती शांति, मृतक जगवीर सिंह की मां, पता-वीपीओ, भूरावल, इज्जर 124103	
03 श्रीमती धिया, पुत्री मृतक जगवीर सिंह, पता -वीपीओ भूरावल, इज्जर 124103	
04 श्री साहिल पुत्र मृतक जगवीर सिंह पता -वीपीओ भूरावल इज्जर 124103	

प्रिय श्रीमान

विषय: इंडियन ओवरसीज बैंक, इज्जर शाखा के साथ आपकी ऋण सुविधाएं

1. आप हमारे बैंक के कर्जदार हैं, जिसने संचयन/हाइपोथेकेज के माध्यम से इसके तहत उल्लिखित परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के लिए हमारे इज्जर शाखा से निम्नलिखित ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया है।
आपने समय-समय पर अपने द्वारा निष्पादित विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से उपरोक्त लेनदेन के तहत देनदारियों को स्वीकार किया है।
विभिन्न ऋण चक्र सुविधाओं/खातों में बकाया देय राशि के साथ ऋण सुविधाओं का विवरण निम्नानुसार है

क्र. सं.	सुविधा की प्रकृति	सीमा	व्याज दर	सूचना की तिथि तक कुल बकाया *
1.	वाहन ऋण - पुष्पक	685000	8.95	590422.30 + अनडेबिटेड व्याज

*अनुबंध दर्श पर ओग व्याज ऊपर उल्लिखित तारीख से भुगतान की तारीख तक देय हो जाएगा।
2. जैसा कि उपर्युक्त ऋण सुविधाएं निम्नानुसार प्रतिभूत हैं

प्रतिभूति की प्रकृति (बंधक/हाइपोथेकेज)	प्रतिभूतियों का विवरण
हाइपोथेकेज	फोर व्हीलर व्हीलक ब्रांड- हुंडई ग्रैंड 110 एटलस व्हाइट पेट्रोल सीएनजी हैच बैक पंजी. नंबर HR14W5229 चेसिस नंबर-MALB3513CLRM601474 इंजन नंबर-G4LARM140504

3. भुगतान में आपके द्वारा किए गए चुक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुसार 21/06/2026 (एनपीए) के रूप में वर्गीकरण की तारीख का उल्लेख) को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हमारे बार-बार अनुशेषों और मांगों के बावजूद आपने उस पर व्याज सहित अतिदेय ऋणों का भुगतान नहीं किया है।
4. चूंकि आप ऊपर उल्लिखित विभिन्न प्रतिभूतियों द्वारा निश्चित प्रतिभूत ऋण सुविधाओं के संबंध में अपनी देनदारियों को पूरा करने में विफल रहे हैं, और आपके खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए हम आपको अपने अधिमों को रोकाल करते हैं और आपको वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 की उप-धारा (2) के तहत नोटिस देते हैं। और कुल रु. 590422.30 और अनडेबिट व्याज, जैसा कि ऊपर पैरा 1 में बताया गया है, ओग व्याज @ 8.95% प्रति वर्ष के साथ, ऊपर उल्लिखित तिथि से, इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर आपसे पूरा भुगतान करने और बैंक को अपने देनदारियों का निर्वहन करने के लिए कहते हैं। हम आपको आगे नोटिस देते हैं कि भुगतान की तारीख तक व्याज के साथ उपरोक्त राशि का भुगतान विफल रहने पर, हम उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत अपने में निहित सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करेंगे और न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना प्रतिभूतियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

5. कृपया ध्यान दें कि पूर्ण भुगतान तक प्रत्येक क्रेडिट सुविधा के लिए ऊपर निर्दिष्ट दरों और शेष पर व्याज लागत रहेगा।
6. आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (13) की ओर भी आकर्षित किया जाता है, जिसके संदर्भ में आपको हमारी पूर्ण लिखित सहमति प्राप्त किए बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त निर्दिष्ट किसी भी प्रतिभूत संपत्ति को स्थानांतरित करने से रोकना जाता है। कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम में निहित प्रावधानों का अनुपालन/उल्लंघन न करना, अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है।
7. हम आप सभी को यह भी नोटिस देते हैं कि यदि व्याजक जहलित में खाते को समय के भीतर नियमित/निपटया नहीं जाता है, तो बैंक वसूली के लिए बैंक को उपलब्ध सभी कानूनी उपाय शुरू करने के अलावा, आपके नाम, पते, डिफॉल्ट के विवरण, बकाया और के साथ समाचार पत्रों में आपकी तस्वीरों को प्रकाशित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
8. हम आपको यह भी सलाह देते हैं कि यह मांग नोटिस पूर्वग्राह के बिना है और इसे किसी भी अन्य अधिकार या उपाय की छूट के रूप में नहीं माना जाएगा जो हमारे पास उपरोक्त बकाया राशि की वसूली के लिए है और साथ ही साथ आपके द्वारा देय और देय राशि के संबंध में ओग को मांग करने का हमारा अधिकार है।

भवदीय,
अधिकृत अधिकारी



KFIN TECHNOLOGIES LIMITED
SEBI Registration Number: INR000000221
Address: 301, The Centrum, 3rd Floor, 57, Lal Bahadur Shastri Road, Nav Pada, Kurla (West), Mumbai - 400 070, Maharashtra, India. **Tel. Number: +91 40 6716 2222;**
Email Id: dhavalpack ipo@kfintech.com; **Investors Grievance Id:** enward.ris@kfintech.com
Website: www.kfintech.com; **Contact Person:** Mr. M Murali Krishna; **CIN:** L72400MH2017PLC444072

On behalf of Board of Directors
For, Dhaval Packaging Limited
sd/-
Mr. Manish Nanalal Dagla
Chairman & Managing Director

दूसरी मंजिल, टेलीफोन भवन कोलाबा मार्केट, कोलाबा, मुंबई 400 005
वसुली कार्यवाही संख्या 58/2022
ऋण वसुली और दिवालिवापन अधिनियम, 1993 के साथ पठित आवकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 48 के तहत अचल संपत्ति की कुकुकी का वारंट
एक्सएच नंबर: 22
अगली तारीख: 12.08.2026
... प्रमाणपत्र धारक
... प्रमाणपत्र देनदार

सेट्टल बैंक ऑफ इंडिया
बनाम
श्री राजपाल नौरंग सिंह यादव एवं अन्य
सेवा में
सीडी नंबर 1 श्री राजपाल नौरंग सिंह यादव
i) बी/801, अमोघ वसुंधरा को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, उत्पल स्कूल के सामने, टाटा क्रोमा के ऊपर, जुहू विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई 400 049।
ii) ए/403, सेरेनटी हाइड्रस, माईडस्पेस के सामने, ऑफ लिंक रोड, मलाड (पश्चिम), मुंबई 400 064
iii) फ्लैट नंबर 1305, 13/14वीं मंजिल, 'बी' विंग, बिल्डिंग नंबर 4, सेरेनटी हाइड्रस, लिंक रोड